



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2007/माघ 13, 1928

No. 31]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2007/MAGHA 13, 1928

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

संख्या फा. 47-49/2006-राअशिप/समन्वय.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 20(3) (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 47-5/2003/राअशिप/समन्वय के माध्यम से निम्न सदस्यों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की क्षेत्रीय समितियों के लिए नामित किया गया था :-

(i) उत्तरी क्षेत्रीय समिति, जयपुर

प्रोफेसर ए. के. शर्मा, ए-18, सेक्टर-33, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश, उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर।

(ii) दक्षिण क्षेत्रीय समिति, बंगलोर

प्रोफेसर (श्रीमती) एम. एस. गोमती अम्मल, 150, चेन्ना, गांधी नगर, तिरुवनंतपुरम, केरला।

(iii) पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, भोपाल

डॉक्टर (सुश्री) हेमलता एन. परसनीस, प्रोफेसर तथा संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई।

(iv) पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर

सुश्री शुभा चैटर्जी, विक्रमशिला एजुकेशन रिसोर्स सोसायटी, 77, महाराजा टैगोर रोड, ढकुरिया, कोलकाता-700031

2. प्रोफेसर ए. के. शर्मा, प्रोफेसर (श्रीमती) एम. एस. गोमती अम्मल तथा डॉ. हेमलता एन. परसनीस की सदस्यता क्रमशः उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रीय समितियों से इस कारण रद्द की जाती है

क्योंकि वे भारत के राजपत्र में 24-2-1996 को प्रकाशित राअशिप के दिनांक 26-12-1995 के विनियम संख्या फा. 28-4/95-राअशिप के खण्ड 3 (च) के साथ पठित राअशिप अधिनियम, 1996 के खण्ड 20(3) के अधीन यथाअपेक्षित परिषद् के सदस्य नहीं हैं।

वी. सी. तिवारी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/IV/असा./131/06]

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2006

No. F. 47-49/2006/NCTE/CDN.—In exercise of the powers conferred under Section 20(3) (a) of the National Council for Teacher Education Act, 1993, the following members were nominated by the Council to the Regional Committees of the National Council for Teacher Education vide NCTE's Notification No. F. 47-5/2003/NCTE/CDN dated 18th March, 2005 :

(i) Northern Regional Committee, Jaipur

Prof. A. K. Sharma, A-18, Sector-33, Noida-201307, Uttar Pradesh Northern Regional Committee, Jaipur.

(ii) Southern Regional Committee, Bangalore

Prof. (Smt.) M. S. Gomti Ammal, 150, Chaitra, Gandhi Nagar, Thiruvananthapuram, Kerala.

(iii) Western Regional Committee, Bhopal

Dr. (Ms.) Hemlata N. Parasnis, Professor and

Dean, Faculty of Education, SNDT Women's University, Mumbai.

(iv) Eastern Regional Committee, Bhubaneswar

Ms. Shubra Chatterjee, Vikramashila Education Resource Society, 77, Maharaja Tagore Road, Dhakuria, Kolkata-700031.

2. The membership of Prof. A. K. Sharma, Prof. (Smt.) M. S. Gombi Ammal and Dr. Hemlata N. Parasnis stands

cancelled from the Northern, Southern and Western Regional Committees respectively as they are not members of the Council as required under Section 20(3) of the NCTE Act, 1993 read with Section 3(f) of the NCTE Regulation No. F. 28-4/95-NCTE dated 26-12-1995, published in the Gazette of India on 24-2-1996.

V. C. TEWARI, Member Secy.

[ADVT-III/IV/Exty./131/06]